



# Millet Product *e-for energy*

## पौष्टिक बाजरा के बिस्कुट

रागी बाजरा कुकीज़		नाचनी / रागी बाजरा कैल्शियम का उत्तम स्रोत
बाजरा मोती कुकीज़		मोती बाजरा प्रोटीन का उत्तम स्रोत
कोद्रा के कुकीज़		कोद्रा बाजरा हड्डी जोड़ों को मजबूत
थोड़ा बाजरा कुकीज़		छोटा बाजरा कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं
बड़ा बाजरा कुकीज़		कैंगनी बाजरा आइरन का उत्तम स्रोत
कैंगनी शहद कुकीज़		बाड़ा बाजरा फ़ाइबर का उत्तम स्रोत
चना बाजरा कुकीज़		चना बाजरा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी
चारा बाजरा कुकीज़		
नवा अनाज कुकीज़		
बहु अनाज काजू कुकीज़		
क्युओना बाजरा कुकीज़		
चिया बीज कुकीज़		
अलसी बीज कुकीज़		
		जैविक गुड बाजरा कुकीज़
नमकीन बाजरा कुकीज़		ताड़ चीनी बाजरा चिकी Low GI Millet Cookies
ग्लूटेन फ्री बाजरा कुकीज़		बेबी बाजरा मम मम
गेहूं कुकीज़		बाजरा बिस्कुट

यहाँ मिलेगा ...

A Quality Products from



No. 8/195-B, Sankagiri Main Road,  
Palmadai, Thiruchengodu - 637 304,  
Namakkal, Tamil Nadu.

Customer Care

Contact : 7200074060

E-mail : moonfoods.av@gmail.com

www.millet snacks.com

*Millet Has Something  
For Everyone*

Our Network Partner

**NO** MAIDA, COLOUR, FLAVOUR,  
BAKING POWDER, AMMONIA







# e-Millet

Product e-for energy



A HEALTHY FOOD  
A WEALTHY LIFE

## पौष्टिक बाजरा स्नैक्स

### Millets - Power House Of Nutrients

बाजरा रस्क	एनर्जि बार
बाजरा कृस्पी	मुरमुरे बार
बाजरा नमकीन्स	बाजरा कैंडी
बाजरा फ़्लेक्स मिक्सर	पाम शुगर चिक्कीस
बाजरा चिक्कीस	बाजरा नूडल्स
बाजरा स्वीट्स	बाजरा सेवई

### Millet Has Something For Everyone

नाचनी / रागी कैल्शियम का उत्तम स्रोत



कैंगनी बाजरा आइरन का उत्तम स्रोत

मोती बाजरा प्रोटीन का उत्तम स्रोत



बाड़ा बाजरा फ़ाइबर का उत्तम स्रोत

कोद्रा बाजरा हड्डी जोड़ों को मजबूत



वना बाजरा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी

छोटा बाजरा कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं



चारा बाजरा विटामिन का उत्तम स्रोत

#### Special Features of e-Millet Products

- No Artificial Color & Flavour
- No MSG & Preservatives
- No Preservatives
- Made with Single Use Oil
- Fried in Controlled Temperature
- No Liquid Glucose & Ammonia

## यहाँ मिलेगा ...



A Quality Product from  
**Dr. Yes Aar Team™**  
yes we can  
No. 8/195-B, Sankagiri Main Road, Palmadai,  
Thiruchengodu - 637 304, Namakkal, Tamil Nadu.

Customer Care  
Contact : 7200074060  
E-mail : dr.sathiyaravi@gmail.com  
www.milletsnacks.com

Our Network Partner



बाजरा नूडल्स	बाजरा रस्क
रागी बाजरा नूडल्स	कैंगनी बाजरा रस्क
कैंगनी बाजरा नूडल्स	थोड़ा बाजरा रस्क
बाड़ा बाजरा नूडल्स	बड़ा बाजरा रस्क
नवाअनाज बाजरा नूडल्स	नवा अनाज बाजरा रस्क
चना बाजरा नूडल्स	नियमित बाजरा मिठाई
विशेष बाजरा नूडल्स	कैंगनी बाजरा लड्डू
क्युओना बाजरा नूडल्स	बड़ा बाजरा बादशा
धियाबीज बाजरा नूडल्स	थोड़ा बाजरा मैसूर पाक
अलसीबीज बाजरा नूडल्स	विशेष बाजरा मिठाई
चौलाई बीज बाजरा नूडल्स	काजू बर्फी / चॉकलेट बर्फी
बाजरा सेवई	रागी मूलाफली बीड़ा
मोती बाजरा सेवई	झाई झूट लड्डू
कैंगनी बाजरा सेवई	बाजरा रवा लड्डू
बाड़ा बाजरा सेवई	बाजरा हलवा / गेहूँ हलवा
थोड़ा बाजरा सेवई	विशेष मिश्रण
चारा बाजरा सेवई	सूखा मेवा खारा बूंदी
गेहूँ सेवई	विशेष बाजरा मिश्रण
	विशेष गुच्छा मिश्रण

**PuerriCh** FRINK  
Puerrich - A minimally processed fruit Squashes rich in nutrients configured passionately

- Amla Squash
- Orange Squash
- Grape with Honey Amla
- Mango Squash
- Nannari Sarbeth
- Pomegranate Squash
- Ginger Honey
- Amla Pickle

We are offering Millet based Sweets & Snacks to all Special occasions Educational institutions & Industries

We realize our responsibility to continue delivering nutritious and nourishing healthful products and it is our mission to be a healthy food for a wealthy life, any time of the day

बाजरा के बिस्कुट खाने के पदार्थ मीठे



A HEALTHY FOOD A WEALTHY LIFE

मर्त है पारंपरिक पदार्थ बनाने वालों का उत्पादकों का बाजरी का पोषक शक्ति घर

Millets - Power House Of Nutrients

<p><b>जावणी / रगी बाजरा</b> कैल्शियम का उत्तम स्रोत मधुमेह कम करना एवं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में नमक और अमीनो एसिड इसके लिए उत्तम स्रोत</p> <p>Kannada-Ragi   Malayalam-Koovangu   Telugu-Ragulu   Hindi-Mandua   Tamil-Keluvagu</p>	<p><b>सुककी बाजरा</b> फाइबर के लिए अच्छा स्रोत लोह का आवश्यक प्रमाण अच्छी पचन किया के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ एवं जीवनसत्व</p> <p>Kannada-Same   Malayalam-Chama   Telugu-Sama   Hindi-Kutki   Tamil-Samai</p>
<p><b>मोती बाजरा</b> अच्छे दर्जे वाला चावल एवं गेहूँ पौष्टिक एवं बी विटामिन और फाइबर पचन किया के उत्तम</p> <p>Kannada-Saji   Malayalam-Kambam   Telugu-Gantlu   Hindi-Bajra   Tamil-Kambu</p>	<p><b>दन्डोरा बाजरा</b> सफेद 15.07% प्रथिने शुगर को संतुलित रखने का अच्छा स्रोत, डायबिटीज और वजन कम करने में मदद करता है।</p> <p>Kannada-Dondu   Malayalam-Khadgulu   Telugu-Dodu   Hindi-Jhangori   Tamil-Kithiravali</p>
<p><b>कोदा बाजरा</b> सूत्र में जो शक्कर प्रमाण है उसको संतुलित रखने में मदद करता है। 11% प्रोटीन का</p> <p>Kannada-Harka   Malayalam-Varagu   Telugu-Arikela   Hindi-Kodra   Tamil-Varagu</p>	<p><b>कैंगली बाजरा</b> सूत्र केन जो शुगर और मजबूती है उनके लिए उपयोगी फिर की विपरीत के लिए उपयोगी आयरिडेट कारक, जीवनसत्व एवं लोह के प्रमाण से शरीर को मजबूत रखने में उपयोगी।</p> <p>Kannada-Navane   Malayalam-Thina   Telugu-Korra   Hindi-Kangni   Tamil-Tenai</p>

A Quality Product from  
**Dr. Yes Aar Team™**  
yes we can  
No. 8/195-B, Sankagiri Main Road, Palmadai, Thiruchengodu - 637 304.  
E-mail : dr.sathiyaravi@gmail.com  
Web : www.milletsnacks.com  
Customer care : 72000 74060

Our Network Partner

100 से ज्यादा किस्मों में बाजरा उत्पादों

पौष्टिक बाजरा कुकीज़

नियमित रूपसे बाजरा कुकीज़	जैविक गुड बाजरा कुकीज़
रागी बाजरा कुकीज़	बाजरा गुड कुकीज़
बाजरा मोती कुकीज़	चना गुड कुकीज़
कोद्रा के बिस्कुट	बड़ा बाजरा गुड कुकीज़
थोड़ा बाजरा बिस्कुट	चना बाजरा गुड कुकीज़
बड़ा बाजरा बिस्कुट	12 अनाज बाजरा गुड कुकीज़
चारा बाजरा	कम सेनिक बाजरा कुकीज़
चना बाजरा	ताड़ चीनी बाजरा कुकीज़
नमकीन बाजरा कुकीज़	हर्बल निष्कर्षों बाजरा कुकीज़
नमकीन जीरा बाजरा कुकीज़	रूट्टेन फ्री बाजरा कुकीज़
नमकीन अजवाईन बाजरा कुकीज़	धियाबीज बाजरा कुकीज़
नमकीन कालीमिर्च बाजरा कुकीज़	अलसीबीज बाजरा कुकीज़
विशेष बाजरा कुकीज़	थोड़ा बाजरा कुकीज़
कैंगनी शहद कुकीज़	बेबी बाजरा मम मम
नवा अनाज कुकीज़	रोब कददू मम मम
बहु अनाज काजू कुकीज़	शहद केला मम मम
क्युओना बायुओना बाजरा कुकीज़	आतू मम मम
धिया बीज कुकीज़	बहु अनाज अजवाईन मम मम
अलसी बीज कुकीज़	बाजरा बिस्कुट
गेहूँ कुकीज़	काजू बिस्कुट
गेहूँ बादाम कुकीज़	चाकलेट बिस्कुट
मक्खन गेहूँ कुकीज़	मेवा बिस्कुट
प्रकृति गेहूँ कुकीज़	शहद केला बिस्कुट

फ्री फार्म:

- मैदा, बेकिंग पाउडर
- नकली रंग एवं स्वाद
- परिक्षणात्मक

विशेष बाजरा उत्पादन के

- एक ही तेल का बार बार इस्तेमाल करना।
- धीमी आंचपर पदार्थों को तलना
- नहीं शक्कर, नहीं अमोनिया

बाजरा में ऊर्जा है सब हो ...

पौष्टिक आहार ! तंदुरुस्त जीवन !!

पौष्टिक बाजरा स्नैक्स

नमकीन बाजरा	विशेष बाजरा चिकी
रागी बाजरा नमकीन	धिया बीज चिकी
मोती बाजरा नमकीन	अलसी बीज चिकी
कैंगनी बाजरा नमकीन	क्युओना बाजरा चिकी
थोड़ा बाजरा नमकीन	मेथेकी चिकी
कोद्रा बाजरा नमकीन	ताड़ चीनी बाजरा चिकी
बड़ा बाजरा नमकीन	मोती बाजरा चिकी
नवाअनाज बाजरा नमकीन	रागी बाजरा चिकी
बाजरा गुच्छे मिक्सर	क्युओना बाजरा चिकी
रागी बाजरा मिक्सर	बहुबाजरा चिकी
मोती बाजरा मिक्सर	ऊर्जा पट्टी
चारा बाजरा मिक्सर	रागी बाजरा ऊर्जा पट्टी
बहुअनाज मिक्सर	मोती बाजरा ऊर्जा पट्टी
गेहूँ मिक्सर	चारा बाजरा ऊर्जा पट्टी
बाजरा खरस्ता	बहुअनाज ऊर्जा पट्टी
बड़ा बाजरा मसाला	मकई ऊर्जा पट्टी
थोड़ा बाजरा टमाटर	गेहूँ ऊर्जा पट्टी
कोद्रा बाजरा मीठा काली मिर्च	फुलाहआ चावल बार
कैंगनी बाजरा मीठी मिर्च	रागी बाजरा चावल बार
नियमित रूपसे बाजरा चिकी	मोती बाजरा चावल बार
मोती बाजरा चिकी	चारा बाजरा चावल बार
रागी बाजरा चिकी	चावल बार
थोड़ा बाजरा चिकी	बाजरा मिठाई
बड़ा बाजरा चिकी	रागी बाजरा मिठाई
कैंगनी बाजरा चिकी	मोती बाजरा मिठाई
चारा बाजरा चिकी	कैंगनी बाजरा मिठाई
प्रोसो बाजरा चिकी	चौलाई बीज मिठाई
सोरघूम बाजरा चिकी	सॉट मिठाई

बाजरा - पौष्टिक का पावर हाउस